



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 2018/ज्येष्ठ 4, 1940

No. 351]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2018/JYAISTHA 4, 1940

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2018

सा.का.नि. 496(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (महानिदेशक संकर्म) भर्ती नियम, 2004 को सिवाय उन बातों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, महानिदेशक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, महानिदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि :- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1.	पद का नाम	महानिदेशक
2.	पदों की संख्या	01*(2018) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)
3.	वर्गीकरण	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्तर 17 (2,25,000/- रुपए)
5.	क्या चयन पद या गैर चयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं होता
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	लागू नहीं होता
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं होता।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं होता।
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति द्वारा।
11.	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / सामेलन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में, जिसमें प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / सामेलन किया जाना है।	प्रोन्नति : (i) विशेष महानिदेशक (सिविल) या विशेष महानिदेशक (वैद्युत एवं मैकेनिकल) या विशेष महानिदेशक (आर्किटेक्चर), जो उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड धन वेतनमान में है (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16), जिन्होंने एसडीजी (सिविल)/एसडीजी (वैद्युत एवं मैकेनिकल)/एसडीजी (आर्किटेक्चर) में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड धन वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16) में कम से

		<p>कम एक वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>जिसके न हो सकने पर</p> <p>(ii) उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड धन वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16) में विशेष महानिदेशक (सिविल) या विशेष महानिदेशक (वैद्युत एवं मैकेनिकल) या विशेष महानिदेशक (आर्किटेक्चर) और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड धन वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15) में विशेष महानिदेशक (सिविल) या विशेष महानिदेशक (वैद्युत एवं मैकेनिकल), विशेष महानिदेशक (आर्किटेक्चर) के ग्रेड में दो वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पणी 1: इस ग्रेड में प्रोन्नति पर निम्नलिखित के अनुसार एक सामान्य पात्रता सूची के आधार पर विचार किया जाएगा :</p> <p>(क) उपर्युक्त प्रवर्ग (i) की दशा में विशेष महानिदेशक (सिविल/वैद्युत एवं मैकेनिकल/आर्किटेक्चर) के ग्रेड में एक वर्ष की विहित सेवा पूरी करने की तारीख को निर्दिष्ट करते हुए।</p> <p>(ख) उपर्युक्त प्रवर्ग (ii) की दशा में अपर महानिदेशक (सिविल/वैद्युत एवं मैकेनिकल/आर्किटेक्चर) और विशेष महानिदेशक (सिविल/वैद्युत एवं मैकेनिकल/आर्किटेक्चर) के ग्रेड में दो वर्ष की विहित सेवा पूरी करने की तारीख को निर्दिष्ट करते हुए।</p> <p>टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसके गठन का स्वरूप क्या है।	<p>समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—</p> <p>(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय – सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय – सदस्य।</p>
13.	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होता है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 5/4/2017-एसएंडडी/ईडब्ल्यू- I]

के संजय मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2018.

G.S.R. 496(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Public Works Department (Director General of Works) Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director General in the Central Public Works Department, Ministry of Housing and Urban Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Central Public Works Department, Director General, (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and the level in pay matrix.**— The number of post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.
4. **Disqualification.**— No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 — shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded, in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Director General.	01*(2018) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 17 (Rs. 2,25,000/-)	Selection.	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
7	8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable	Not applicable.	By promotion.	<p>Promotion:</p> <p>(i) Special Director General (Civil) or Special Director General (Electrical & Mechanical) or Special Director General (Architecture) in the Higher Administrative Grade plus scale (Level 16 of pay matrix) with at least one year regular service in the grade of Special Director General (Civil) or Special Director General (Electrical & Mechanical) or Special Director General (Architecture) in Higher Administrative Grade plus scale (Level 16 of pay matrix).</p> <p>failing which by</p> <p>(ii) Special Director General (Civil) or Special Director General (Electrical & Mechanical) or Special Director Gen-</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for (considering promotion) consisting of:—</p> <p>(i) Chairman or Member, Union Public Service Commission-Chairman;</p> <p>(ii) Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs-Member;</p> <p>(iii) Secretary, Ministry of Road Transport and Highways – Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
7	8	9	10	11	12	13
				<p>eral (Architecture) with two years combined regular service in the grades of Special Director General (Civil) or Special Director General (Electrical & Mechanical) or Special Director General (Architecture) in the Higher Administrative Grade plus scale (Level 16 of pay matrix) and Additional Director General (Civil) or Additional Director General (Electrical & Mechanical) or Additional Director General (Architecture) in Higher Administrative Grade scale (Level 15 of pay matrix)</p> <p>Note: 1- Promotion to the grade shall be considered based on a common eligibility list as per following:</p>		

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
7	8	9	10	11	12	13
				<p>(A) with reference to the date of completion by officers of the prescribed service of one year in the grade of Special Director General (Civil) or Special Director General (Electrical & Mechanical) or Special Director General (Architecture), in the case of category (i) above.</p> <p>(B) with reference to the date of completion by officers of the prescribed combined service of two years in the grade of Additional Director General (Civil) or Additional Director General (Electrical & Mechanical) or Additional Director General (Architecture) and Special Director General (Civil) or Special Director General (Electrical & Mechanical) or</p>		

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
7	8	9	10	11	12	13
				<p>Special Director General (Architecture), in the case of category (ii) above.</p> <p>Note: 2 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior in their own cadre would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, which is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>		

[F. No. 5/4/2017-S&D/EW.I]

K. SANJAY MURTHY, Jt. Secy.